



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 1978/भाद्र 16, 1900

No. 265]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1978/BHADRA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1978

प्रादेश

सा० का० नि० 446(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक वस्तु अर्थात् उर्वरक का साम्य रूप से वितरण के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है।

प्रतः भव्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्माता :—

(1) तयामयित अनुसूची स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों/प्रदेशों/संघ राज्य क्षेत्रों/प्रदेशों/पण्य उद्यानों में रजिस्ट्रीकृत उर्वरक व्यवहारियों को उक्त अनुसूची में उल्लिखित उर्वरक तथा मात्रा को 1 अगस्त, 1978 से 31 जनवरी, 1979 की अवधि के दौरान एक महीने में अनुसूची में विनिर्दिष्ट मात्रा का 116 की दर पर बेचेंगे, और

(2) केन्द्रीय सरकार और तयामयित अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों/प्रदेशों/पण्य उद्यानों के पण्य मण्डलों को प्रत्येक मास की 10 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें निम्नलिखित हो:

(1) स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और पण्य उद्यानों के विभिन्न व्यवहारियों को पूर्व मास में भेजे गये उर्वरक की मात्रा उनकी प्रेषण की तारीख, और

(2) स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और पण्य उद्यानों के विभिन्न व्यवहारियों को उत्तरवर्ती काम में उक्त विनिर्माता जिस उर्वरक को भेजने की प्रस्तावना करता है, उसकी मात्रा:

अनुसूची

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर लिमिटेड			फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड		
	एन०	सप्लाई पी०	के०	एन०	सप्लाई पी०	के०
1	2	3	4	5	6	7
1 मध्य प्रदेश	21420	22890	980	27091 (2612 ए० एन०)	11212	--
2 कर्नाटक	560	560	--	8000 (1300 ए० एन०)	6360	--
3 केरल	--	--	--	16480 (2700 ए० एन०)	7750	2720
4 तमिलनाडु	--	--	--	19860 (1000 ए० एन०)	7400	1360
5 पाण्डिचेरी	--	--	--	--	--	--
6 काशी बोर्ड	--	--	--	1660 (600 ए० एन०)	200	--
7 रबी बोर्ड	--	--	--	824 (700 ए० एन०)	--	--
8 इलायची बोर्ड	--	--	--	105	--	--
9 चाय बोर्ड (दक्षिण)	--	--	--	3200 (1800 ए० एन०)	300	--
10 महाराष्ट्र	--	--	--	5820	3540	--
11 मध्य प्रदेश	4578	4788	140	920	1480	--
12 गुजरात	--	--	--	--	--	--
13 राजस्थान	--	--	--	360	920	--
14 गोवा, वसंत और दीव	--	--	--	--	--	--
15 वावरा और नगर हवेली	--	--	--	--	--	--
16 हरियाणा	--	--	--	360	920	--
17 हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--
18 जम्मू और कश्मीर	--	--	--	--	--	--
19 पंजाब	--	--	--	1440	3680	--
20 उत्तर प्रदेश	980	1190	140	2097	5358	--
21 दिल्ली	--	--	--	--	--	--
22 चंडीगढ़	--	--	--	--	--	--
23 असम	--	--	--	--	--	--
24 बिहार	--	--	--	--	--	--
25 उड़ीसा	3892	3892	--	--	--	--
26 पश्चिम बंगाल	3892	3892	--	460	740	--
27 मणिपुर	--	--	--	--	--	--
28 मेघालय	--	--	--	--	--	--
29 त्रिपुरा	--	--	--	--	--	--
30 नागालैण्ड	--	--	--	--	--	--
31 अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--
32 मिज़ोरम	--	--	--	--	--	--
33 सिक्किम	--	--	--	--	--	--
34 चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	--	--	--	--	--	--
35 अन्वमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	--	--	--	--	--	--
योग	35322	37212	1260	88677	49860	4080

भवनसूची

(मीटरी टन)

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों इत्यादि का नाम	इंजियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड	मन्नास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड				
	एन०	सप्लाय पी०	के०	एन०	सप्लाय पी०	के०
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	3730	1600	800	27730	14606	10977
2. कर्नाटक	3000	2100	1700	10000	8446	8446
3. केरल	---	---	---	4870	1800	1800
4. तमिल नाडु	3840	5200	5200	29160	19323	17286
5. पांडिचेरी	---	---	---	484	383	383
6. काफी बोर्ड	---	---	---	---	---	---
7. रबड़ बोर्ड	---	---	---	---	---	---
8. इलाइची बोर्ड	---	---	---	---	---	---
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	---	---	---	---	---	---
10. महाराष्ट्र	6490	3120	3120	850	850	850
11. मध्य प्रदेश	7090	4800	2400	6492	6160	406
12. गुजरात	23100	18600	10080	---	---	---
13. राजस्थान	6300	5760	2880	---	---	---
14. गोवा, वमन और दीव	---	---	---	---	---	---
15. दादरा और नगर हवेली	---	---	---	---	---	---
16. हरियाणा	11640	8960	4480	396	1012	---
17. हिमाचल प्रदेश	240	640	320	---	---	---
18. जम्मू और कश्मीर	---	---	---	---	---	---
19. पंजाब	31500	28800	14400	1592	2614	266
20. उत्तर प्रदेश	34360	30400	15200	848	1432	---
21. दिल्ली	290	160	80	---	---	---
22. चण्डीगढ़	---	---	---	---	---	---
23. असम	---	---	---	---	---	---
24. बिहार	1200	3200	1600	---	---	---
25. उड़ीसा	200	520	520	852	530	170
26. पश्चिम बंगाल	1900	4940	4940	---	---	---
27. मणिपुर	---	---	---	---	---	---
28. मेघालय	---	---	---	---	---	---
29. त्रिपुरा	---	---	---	---	---	---
30. नागालैण्ड	---	---	---	---	---	---
31. अरुणाचल प्रदेश	---	---	---	---	---	---
32. मिजोरम	---	---	---	---	---	---
33. सिक्किम	---	---	---	---	---	---
34. चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	---	---	---	---	---	---
35. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	---	---	---	---	---	---
योग	134880	118800	67720	83074	57156	40584

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि का नाम	राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स ट्राम्बे			जुमारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड		
	एन०	सप्लआई पी०	के०	एन०	सप्लआई पी०	के०
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	4100	4100	2100	45910	10320	3040
2. कर्नाटक	5750	3800	3600	13000	3510	3230
3. केरल	—	—	—	—	—	—
4. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
5. काफ़ी बोर्ड	1500	1500	1500	1440	500	380
6. खड़ बोर्ड	450	450	450	—	—	—
7. इलाहबी बोर्ड	—	—	—	—	—	—
8. नाय बोर्ड (वर्षा)	—	—	—	—	—	—
9. महाराष्ट्र	25430	13950	7950	24220	3980	3420
10. मध्य प्रदेश	1150	1150	150	—	—	—
11. गुजरात	950	950	750	—	—	—
12. राजस्थान	1050	1050	450	—	—	—
13. गोवा, दमन और दीव	150	150	150	1250	350	190
14. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
15. पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—
16. हरियाणा	—	—	—	—	—	—
17. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
18. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	—	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	2000	2000	600	—	—	—
21. दिल्ली	—	—	—	—	—	—
22. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
23. असम	—	—	—	—	—	—
24. बिहार	4200	4200	1200	—	—	—
25. उड़ीसा	400	400	—	—	—	—
26. पश्चिम बंगाल	4400	4400	1200	—	—	—
27. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
28. मेघालय	—	—	—	—	—	—
29. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
30. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
31. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
32. मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—
33. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
34. नाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	—	—	—	—	—	—
35. अन्धमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
योग	51530	38100	20100	85820	18660	10260

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रायिक के नाम	ई० आई० बी० पैरी लि०		गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स को० लि०		श्री राम कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज	
	सप्लाई		सप्लाई		सप्लाई	
	एन०	पी०	एन०	पी०	एन०	पी०
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1315	2322	—	—	—	—
2. कर्नाटक	1245	2400	—	—	—	—
3. केरल	40	50	—	—	—	—
4. तमिलनाडु	960	3728	—	—	—	—
5. पाण्डिचेरी	40	50	—	—	—	—
6. काफी बोर्ड	—	—	—	—	—	—
7. रबर बोर्ड	—	—	—	—	—	—
8. हसाइची बोर्ड	—	—	—	—	—	—
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	—	—	—	—	—	—
10. महाराष्ट्र	80	100	8460	253	—	—
			(2800 ए०एस०)			
11. मध्य प्रदेश	—	—	4000	253	8496	500
			(300 ए०एस०)			
12. गुजरात	—	—	50250	12644	—	—
			(14800 ए०एस०)			
13. राजस्थान	—	—	4000	2208	24836	1050
			(280 ए०एस०)			
14. गोवा, दमन और दीव	—	—	65	23	—	—
15. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
16. हरियाणा	—	—	3362	253	6000	1232
			(266 ए०एस०)			
17. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	240
18. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	5315	345	6000	3430
			(300 ए०एस०)			
20. उत्तर प्रदेश	560	700	11740	2421	11460	1820
21. विल्ली	—	—	—	—	248	96
22. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
23. असम	—	—	—	—	—	—
24. बिहार	—	—	—	—	—	—
25. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
26. पश्चिम बंगाल	560	700	—	—	—	—
27. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
28. मेघालय	—	—	—	—	—	—
29. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
30. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
31. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
32. मिजोरम	—	—	—	—	—	—
33. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
34. चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	—	—	—	—	—	—
35. अन्धमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
योग	4800	10050	87192	18400	57040	8368

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों आदि के नाम	सर्वम पेट्रो केमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पो- रेशन		हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड			
			सप्लाई	मिलाली सप्लाई	बोकारो सप्लाई	राउरकेला सप्लाई
			एन०	एन०	एन०	एन०
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	13480	2300	1800 (ए०एस०)	—	—	13200 (12000 सी० ए०एन० + 1200 ए०एस०)
2. कर्नाटक	3000	920	—	—	—	(सी०ए० एन०) 375
3. केरल	2904	368	—	—	—	—
4. तमिलनाडु	64940	10580	—	—	—	(सी०ए०एन०) 125
5. पाण्डिचेरी	1390	230	—	—	—	—
6. काफ़ी बोर्ड	500	184	—	—	—	—
7. रबड़ बोर्ड	—	—	—	—	—	—
8. इलाखी बोर्ड	—	—	—	—	—	—
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	—	—	—	—	—	(सी०ए०एन०) 250
10. महाराष्ट्र	4600	— (ए०एस०)	600	—	—	—
11. मध्य प्रदेश	—	— (ए०एस०)	1400	—	—	(सी०ए०एन०) 625
12. गुजरात	—	—	—	—	—	—
13. राजस्थान	—	—	—	—	—	—
14. गोवा, दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
15. वायरा और मगर हवेली	—	—	—	—	—	—
16. हरियाणा	—	—	—	—	—	—
17. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
18. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	—	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	—	—	—	1600 (ए०एस०)	—	(सी०ए०एन०) 4500
21. दिल्ली	—	—	—	—	—	—
22. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
23. असम	—	—	—	—	—	—
24. बिहार	—	—	—	1200 (ए०एस०)	—	(सी०ए०एन०) 4375
25. उड़ीसा	—	5	—	—	—	10400 (10000 सी० ए० एन० + 400 ए० एस०)
26. पश्चिम बंगाल	—	—	—	(ए०एस०) 1580	—	6430 (6250 सी० ए० एन० + 180 ए० एस०)
27. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
28. मेघालय	—	—	—	—	—	—
29. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
30. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
31. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
32. मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—
33. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
34. चय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	—	—	—	—	—	—
35. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
योग	90814	14582	3800	2800	1580	40280

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	भारतीय उर्वरक निगम गोरखपुर सप्लाई एन०	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन			इंडियन एक्स-प्लोसिव लिमिटेड सप्लाई एन०	टाटा स्टील लि. एंज स्टील कं० सप्लाई एन०	मीटरी टन
		बरोनी सप्लाई एन०	दुर्गापुर सप्लाई एन०	नामरूप सप्लाई एन०			इंडियन आयर्न एंज स्टील कं० सप्लाई एन०
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
2. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—
3. केरल	—	—	—	—	—	—	—
4. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—
5. पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
6. काफी बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
7. रबड़ बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
8. इलाहाबादी बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
9. चाय बोर्ड (वर्षा)	—	—	—	—	—	—	—
10. महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—
11. मध्य प्रदेश	—	10000	—	—	460	—	—
12. गुजरात	—	—	—	—	—	—	—
13. राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—
14. गोवा, वमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
15. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
16. हरियाणा	—	—	—	—	10830	—	—
17. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
18. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	—	—	13800	—	—
20. उत्तर प्रदेश	54650	—	—	—	65220	—	—
21. दिल्ली	—	—	—	—	370	—	—
22. चंडीगढ़	—	—	—	—	30	—	—
23. असम	—	—	—	4400	—	—	—
				(1000 ए०एस०)			
24. बिहार	—	20000	7640	11504	5000	1560 (ए०एस०)	—
				(2240 ए०एस०)			
25. उड़ीसा	—	—	4180	—	—	—	—
26. पश्चिम बंगाल	—	—	21340	6940	—	—	1080 (ए०एस०)
				(2000 ए०एस०)			
27. मणिपुर	—	—	—	980	—	—	—
28. मेघालय	—	—	—	560	—	—	—
				(ए० एस०)			
29. त्रिपुरा	—	—	—	649	—	—	—
30. नागालैण्ड	—	—	—	118	—	—	—
31. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	27	—	—	—
32. सिक्किम	—	—	—	12	—	—	—
33. सिक्किम	—	—	—	50	—	—	—
34. चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	—	—	—	13130	—	—	—
				(4000 ए०एस०)			
35. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—
योग	54650	30000	33160	40370	95710	1560 (ए०एस०)	1080 (ए०एस०)

(मोटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि के नाम	मंगलौर केमिकल्स	नवेली लिमनाइट	शू सेंडल जूट	नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन		
	एंड फर्टिलाइजर्स सप्लाई एन०	कारपोरेशन लि० सप्लाई एन०	मिक्स सप्लाई एन०	भंडावा सप्लाई एन०	नंगल सप्लाई एन०	पानोपत सप्लाई एन०
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	9870	3507	25	--	--	--
2. कर्नाटक	48000	--	--	--	--	--
3. केरल	1840	--	--	--	--	--
4. तमिलनाडु	1840	9321	--	--	--	--
5. पंजाब	--	702	--	--	--	--
6. काफ़ी बोर्ड	4000	--	--	--	--	--
7. रबड़ बोर्ड	--	--	--	--	--	--
8. इलाइची बोर्ड	--	--	--	--	--	--
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	--	--	--	--	--	--
10. महाराष्ट्र	3450	--	50	--	--	--
11. मध्य प्रदेश	--	--	50	--	--	--
12. गुजरात	--	--	25	--	--	--
13. राजस्थान	--	--	--	1840	2600 (सी० ए० एन०)	--
14. गोवा, दमन और दीव	--	--	--	--	--	--
15. दादरा और नगर हवेली	--	--	--	--	--	--
16. हरियाणा	--	--	--	460	15420 8750 (सी० ए० एन०)	6900
17. हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	2960 (2500 सी० ए० एन०)	--
18. जम्मू और कश्मीर	--	--	--	--	--	--
19. पंजाब	--	--	--	5520	31250 10120 (13250 सी० ए० एन०)	--
20. उत्तर प्रदेश	--	--	2000	--	10000 (सी० ए० एन०)	--
21. दिल्ली	--	--	--	--	--	836
22. झारखण्ड	--	--	--	--	270	--
23. असम	--	--	--	--	--	--
24. बिहार	--	--	250	--	--	--
25. छत्तीसगढ़	--	--	--	--	--	--
26. पश्चिम बंगाल	--	--	--	--	--	--
27. मणिपुर	--	--	--	--	--	--
28. मेघालय	--	--	--	--	--	--
29. मिजोरम	--	--	--	--	--	--
30. नागालैण्ड	--	--	--	--	--	--
31. ओडिशा	--	--	--	--	--	--
32. सिक्किम	--	--	--	--	--	--
33. त्रिपुरा	--	--	--	--	--	--
34. चाय बोर्ड (उत्तर प्रदेश)	--	--	--	--	--	--
35. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	--	--	--	--	--	--
योग	69000	14030	2400	7820	62500	17856

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि के नाम	आदर्श केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड	आ० फर्टिलाइजर	ग्रान्थ शुगर	प्रतिल स्टाच कस्त	प्रतीश केमि-	एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज प्रसम लि०	भारत फर्टि- लाइजर
	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	--	3680	1600	--	--	--	--
2. कर्नाटक	--	480	--	--	--	--	--
3. केरल	--	--	--	--	--	--	--
4. तमिलनाडु	--	--	--	--	--	--	--
5. पाञ्चिचेरी	--	--	--	--	--	--	--
6. काफी बोर्ड	--	--	--	--	--	--	--
7. रबड़ बोर्ड	--	--	--	--	--	--	--
8. इलाहबी बोर्ड	--	--	--	--	--	--	--
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	--	--	--	--	--	--	--
10. महाराष्ट्र	400	--	--	--	--	--	960
11. मध्य प्रदेश	320	--	--	--	--	--	400
12. गुजरात	3330	--	--	1520	240	--	96
13. राजस्थान	--	--	--	--	--	--	--
14. गोवा	--	--	--	--	--	--	--
15. दावरा और नगर हवेली	30	--	--	--	--	--	--
16. हरियाणा	--	--	--	--	--	--	--
17. हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--	--
18. जम्मू और कश्मीर	--	--	--	--	--	--	--
19. पंजाब	720	--	--	800	240	--	--
20. उत्तर प्रदेश	--	--	--	480	--	--	--
21. दिल्ली	--	--	--	--	--	--	--
22. चंडीगढ़	--	--	--	--	--	--	--
23. असम	--	--	--	--	--	440	--
24. बिहार	--	--	--	--	--	--	--
25. उड़ीसा	--	160	--	--	--	--	--
26. पश्चिम बंगाल	--	--	--	--	--	240	--
27. मणिपुर	--	--	--	--	--	136	--
28. मेघालय	--	--	--	--	--	450	--
29. त्रिपुरा	--	--	--	--	--	51	--
30. नागालैण्ड	--	--	--	--	--	24	--
31. अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	8	--
32. मिज़ोरम	--	--	--	--	--	8	--
33. सिक्किम	--	--	--	--	--	--	--
34. चाय बोर्ड (उत्तर- पूर्व)	--	--	--	--	--	243	--
35. अन्वमान और निको- बार द्वीपसमूह	--	--	--	--	--	--	--
योग	4800	4320	1600	2800	480	1600	1456

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि के नाम	क्रियम्बटूर पानियर फर्टिलाइजर	धर्मसी मोरारजी कैमिकल्स कं० लि०		गैमन फर्टिलाइजर		हिन्दुस्तान फर्टि-	हिन्दुस्तान जिंक-
		प्रम्बरनाथ	कम्हारी	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स	हिन्दुस्तान कापर लि०	लाइजर्स इन्ड- स्ट्रीज	लि०
	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
2. कर्नाटक	400	—	—	2848	—	—	—
3. केरल	160	—	—	—	—	—	—
4. तमिलनाडु	880	—	—	80	—	—	—
5. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
6. काफी बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
7. रबड़ बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
8. इलाहची बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	—	—	—	—	—	—	—
10. महाराष्ट्र	—	5600	400	—	200	—	1180
11. मध्य प्रदेश	—	2080	5200	—	200	160	140
12. गुजरात	—	3520	—	—	200	—	—
13. राजस्थान	—	* 320	—	—	800	568	720
14. गोवा, दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
15. दादरा और नगर- हवेली	—	—	—	—	—	—	—
16. हरियाणा	—	—	—	—	1000	—	200
17. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	200	—	—
18. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	320	—	4100	—	1000
20. उत्तर प्रदेश	—	—	520	—	1400	—	160
21. दिल्ली	—	—	—	—	100	—	—
22. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
23. असम	—	—	—	—	—	—	—
24. बिहार	—	—	320	—	—	—	—
25. उड़ीसा	—	—	200*	—	—	—	—
26. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—
27. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
28. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
29. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
30. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—
31. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
32. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
33. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
34. चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	—	—	—	—	—	44	—
35. अन्वमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—
योग ~	1440	11520	6960	2928	8200	728	3400

(मीटरी टन)							
राज्य/संघ	हैदराबाद	जयश्री	कोठारी	कृष्णा	लिबर्टी	उड़ीसा	पौशा
राज्य क्षेत्र	कैमिकल्स	कैमिकल्स	(सद्राम)	इंडस्ट्रीज	पैस्टी-	फर्टिलाइजर्स	लिमिटेड
भावि के नाम	एण्ड फर्टिलाइजर्स	एण्ड फर्टिलाइजर्स	लिमिटेड	कापेरिशन लिमिटेड	साइटस		
	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०	सप्लाई पी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	2880	—	1360	1920	—	—	—
2. कर्नाटक	—	—	960	—	—	—	—
3. केरल	—	—	—	—	—	—	—
4. तमिलनाडु	—	—	1120	—	—	—	—
5. पाण्डिचेरी	—	—	160	—	—	—	—
6. काफी बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
7. रबड़ बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
8. इलाहबी बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	—	—	—	—	—	—	—
10. महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	* 120
11. मध्य प्रदेश	—	—	—	—	200	—	* 120
12. गुजरात	—	—	—	—	100	—	1760
13. राजस्थान	—	—	—	—	300	—	—
14. गोवा, दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
15. वायरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
16. हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
17. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
18. जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	—	—
19. पंजाब	—	—	—	—	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	—	320	—	—	—	—	—
21. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—
22. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
23. असम	—	—	—	—	—	—	—
24. बिहार	—	960	—	—	—	360	—
25. उड़ीसा	—	—	—	—	—	1057	—
26. पश्चिमी बंगाल	—	2720	—	—	—	300	—
27. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
28. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
29. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
30. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—
31. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
32. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
33. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
34. चाय बोर्ड और (उत्तर पूर्व)	—	—	—	—	—	—	—
35. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—
योग	2880	4000	3600	1920	600	1717	2000

*सङ्क द्वारा संचलन

(मीटरों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों आदि के नाम	फास्कोट कम्पनी लिमिटेड	फाराइट्स फास्कोट कैमिकल लिमिटेड	रैलिस कैमिकल लिमिटेड	शाबासिस एण्ड लि०	विरज कैमिकल लिमिटेड	वेस्टन कैमिकल लिमिटेड	वेस्ट इंडिया कैमिकल लिमिटेड
	सप्लाय पी	सप्लाय पी	सप्लाय पी	सप्लाय पी	सप्लाय पी	सप्लाय पी	सप्लाय पी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	---	---	---	2400	---	---	---
2. कर्नाटक	---	400	---	560	---	---	200*
3. केरल	---	600	---	---	---	---	---
4. तमिलनाडु	---	600	---	2400	---	---	---
5. पांडिचेरी	---	---	---	144	---	---	---
6. काफी बोर्ड	---	580	---	---	---	---	---
7. रवड़ बोर्ड	---	500	---	---	---	---	---
8. दलायची बोर्ड	---	200	---	---	---	---	---
9. चाय बोर्ड (दक्षिण)	---	100	---	---	---	---	---
10. महाराष्ट्र	---	---	---	---	---	240	2600
11. मध्य प्रदेश	---	---	240	---	---	---	168*
12. गुजरात	---	---	---	---	70	---	---
13. राजस्थान	---	---	---	---	---	---	---
14. गोवा, दमन तथा दीव	---	50	---	---	---	---	32
15. दादरा तथा नगर हवेली	---	---	---	---	---	---	---
16. हरियाणा	---	---	120	---	---	---	---
17. हिमाचल प्रदेश	---	10	---	---	---	---	---
18. जम्मू व कश्मीर	---	---	---	---	---	---	---
19. पंजाब	---	---	600	---	---	---	---
20. उत्तर प्रदेश	---	300	2700	---	---	---	---
21. दिल्ली	---	---	---	---	---	---	---
22. चंडीगढ़	---	---	---	---	---	---	---
23. असम	---	100	---	---	---	---	---
24. बिहार	1020	350	240	---	---	---	---
25. उड़ीसा	---	600	---	32	---	---	---
26. पश्चिम बंगाल	1860	400	100	80*	---	---	---
27. मणिपुर	---	---	---	---	---	---	---
28. मेघालय	---	100	---	---	---	---	---
29. त्रिपुरा	120	10	---	---	---	---	---
30. नागालैण्ड	---	---	---	---	---	---	---
31. झारखण्ड प्रदेश	---	---	---	---	---	---	---
32. मिजोरम	---	---	---	---	---	---	---
33. सिक्किम	---	---	---	---	---	---	---
34. चाय बोर्ड (उत्तर पूर्व)	---	700	---	---	---	---	---
35. अन्वमान धीर निकोबार द्वीपसमूह	---	---	---	---	---	---	---
योग	3000	5600	4000	5616	70	240	3000

*सड़क द्वारा संचालन।

[सं० 22019/78-एम० (कुई)]

ए० जे० एस० सोधी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 7th September 1978

G.S.R. 446(E)—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary and expedient so to do for securing the equitable distribution of the essential commodity, namely fertiliser:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby directs that the manufacturers specified in the schedule given below :

1. Shall sell to the registered fertilisers dealers in the States, Union Territories and the Commodity Gardens mentioned in Column 1 of the said schedule fertilisers of the description and quantity mentioned therein during the period 1st August, 1978 to 31st January, 1979 at the rate of one sixth of the quantity specified in the schedule in a month; and

2. Shall submit to the Central Government and the State Govt. or U. Ts. or Commodity Boards pertaining to the Commodity Gardens mentioned in Column 2 of the said schedule a statement by the 10th day of every month containing therein :—

(i) The quantity of fertilisers despatched to various dealers in the States, Union Territories and the Commodity Gardens mentioned in Column 1 with the dates of despatch during previous month; and

(ii) The quantity of fertilisers which the said manufacturer propose to despatch to the various dealers in the States Union Territories and Commodity Gardens mentioned in Column 1 in the succeeding month.

Name of State/U.Ts. etc.	Cormondal Fertiliser Ltd.			Fertiliser & Chemicals Travancore Ltd.		
	Supply			Supply		
	N	P	K	N	P	K
1. Andhra Pradesh	21420	22890	980	27091 (2612 As)	11212	..
2. Karnataka	560	560	..	8000 (1300 As)	6360	..
3. Kerala	16480 (2700 As)	7750	2720
4. Tamil Nadu	19860 (1000 As)	7400	1360
5. Pondicherry
6. Coffee Board	1660 (600 As)	200	..
7. Rubber Board	824 (700 As)
8. Cardamom Board	105
9. Tea Board (South)	3200 (1800 As)	300	..
10. Maharashtra	5820	3540	..
11. Madhya Pradesh	4578	4788	140	920	1480	..
12. Gujarat
13. Rajasthan	360	920	..
14. Goa, Daman & Diu
15. Dadra & Nagar Haveli
16. Haryana	360	920	..
17. Himachal Pradesh
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab	1440	3680	..
20. Uttar Pradesh	980	1190	140	2097	5358	..
21. Delhi
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar
25. Orissa	3892	3892
26. West Bengal	3892	3892	..	460	740	..
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A. N. Islands
Total	35322	37212	1260	88677	49860	4080

Name of State/U.Ts. etc.	(Tonnes)					
	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.			Madras Fertiliser Limited		
	Supply			Supply		
	N	P	K	N	P	K
1. Andhra Pradesh	3730	1600	800	27730	14606	10977
2. Karnataka	3000	2100	1700	10000	8446	8446
3. Kerala	4870	1800	1800
4. Tamil Nadu	3840	5200	5200	29160	19323	17286
5. Pondicherry	484	383	383
6. Coffee Board
7. Rubber Board
8. Cardamom Board
9. Tea Board (South)
10. Maharashtra	6490	3120	3120	850	850	850
11. Madhya Pradesh	7090	4800	2400	6492	6160	406
12. Gujarat	23100	18600	10080
13. Rajasthan	6300	5760	2880
14. Goa, Daman & Diu
15. Dadra & Nagar Haveli
16. Haryana	11640	8960	4480	396	1012	..
17. Himachal Pradesh	240	640	320
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab	31500	28800	14400	1592	2614	266
20. Uttar Pradesh	34360	30400	15200	648	1432	..
21. Delhi	290	160	80
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar	1200	3200	1600
25. Orissa	200	520	520	852	530	170
26. West Bengal	1900	4940	4940
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A. & N. Islands
TOTAL	134880	118800	67720	83074	57156	40584

Name of State/U.Ts. etc.	(Tonnes)					
	Rashtriya Chemicals & Fertilisers Trombay			Zuari Agro Chemicals Limited		
	Supply			Supply		
	N	P	K	N	P	K
1	2	3	4	5	6	7
1. Andhra Pradesh	4100	4100	2100	45910	10320	3040
2. Karnataka	5750	3800	3600	13000	3510	3230
3. Kerala
4. Tamil Nadu
5. Coffee Board	1500	1500	1500	1440	500	380
6. Rubber Board	450	450	450
7. Cardamom Board
8. Tea Board (South)
9. Maharashtra	25430	13950	7950	24220	3980	3420
10. Madhya Pradesh	1150	1150	150
11. Gujarat	950	950	750
12. Rajasthan	1050	1050	450
13. Goa, Daman & Diu	150	150	150	1250	350	190
14. Dadra & Nagar Haveli
15. Pondicherry

1	2	3	4	5	6	7
16. Haryana
17. Himachal Pradesh
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab
20. Uttar Pradesh	2000	2000	600
21. Delhi
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar	4200	4200	1200
25. Orissa	400	400
26. West Bengal	4400	4400	1200
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A. & N. Islands
TOTAL	51530	38100	20100	85820	18660	10260

(Tonnes)

State/U.Ts. etc.	E.I.D. Parry Ltd.		Gujarat State Fertiliser Co. Ltd.		Shriram Chem. Industries	
	Supply		Supply		Supply	
	N	P	N	P	N	P
1	2	3	4	5	6	7
1. Andhra Pradesh	1315	2322
2. Karnataka	1245	2400
3. Kerala	40	50
4. Tamil Nadu	960	3728
5. Pondicherry	40	50
6. Coffee Board
7. Rubber Board
8. Cardamom Board
9. Tea Board (South)
10. Maharashtra	80	100	8460 (2800 AS)	253
11. Madhya Pradesh	4000 (300 AS)	253	8496	500
12. Gujarat	50250 (14800 AS)	12644
13. Rajasthan	4000 (280 AS)	2208	24836	1050
14. Goa, Daman & Diu	65	23
15. Dadra & Nagar Haveli
16. Haryana	3362 (266 AS)	253	6000	1232
17. Himachal Pradesh	240
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab	5315 (300 AS)	345	6000	3430
20. Uttar Pradesh	560	700	11740	2421	11460	1820
21. Delhi	248	96
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar
25. Orissa
26. West Bengal	560	700

1	2	3	4	5	6	7
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A. & N. Islands
TOTAL	4800	10050	87192	18400	57040	8368

(Tonnes)

Name of State/U.Ts. etc.	Southern Petro Chemicals Industries Corn.		HINDUSTAN STEEL LIMITED				
			Bhilai	Bokaro	Durgapur	Rourkela	
			Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
	N	P	N	N	N	N	N
1. Andhra Pradesh	13480	2300	1800 (AS)	13200 (12000 CAN + 1200 AS)
2. Karnataka	3000	920	375 (CAN)
3. Kerala	2904	368
4. Tamil Nadu	64940	10580	125 (CAN)
5. Pondicherry	1390	230
6. Coffee Board	500	184
7. Rubber Board
8. Cardamom Board
9. Tea Board (South)	250 (CAN)
10. Maharashtra	4600	..	600 (AS)
11. Madhya Pradesh	1400 (AS)	625 (CAN)
12. Gujarat
13. Rajasthan
14. Goa, Daman & Diu
15. Dadra, Nagar Haveli
16. Haryana
17. Himachal Pradesh
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab
20. Uttar Pradesh	1600 (AS)	4500 (CAN)
21. Delhi
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar	1200 (AS)	4375 (CAN)
25. Orissa	10400 (10000 CAN + 400 AS)
26. West Bengal	1580 (AS)	..	6430 (6250 CAN + 180 AS)
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A. & N. Islands
TOTAL	90814	14582	3800	2800	1580		40280

(Tonnes)

Name of State/U.Ts. etc.	FCI Gorakhpur	HINDUSTAN FERT. CORPN.			Indian Explo- sive Ltd.	Tata Irror & Steel Co.	Indian Iron & Steel Co.
		Barauni	Durgapur	Namrup			
		Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
		N	N	N	N	N	N
1. Andhra Pradesh
2. Karnataka
3. Kerala
4. Tamil Nadu
5. Pondicherry
6. Coffee Board
7. Rubber Board
8. Cardamom Board
9. Tea Board (South)
10. Maharashtra
11. Madhya Pradesh	..	10000	460
12. Gujarat
13. Rajasthan
14. Goa, Daman & Diu
15. Dadra, Nagar Haveli
16. Haryana	10830
17. Himachal Pradesh
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab	13800
20. Uttar Pradesh	54650	65220
21. Delhi	370
22. Chandigarh	30
23. Assam	4400 (1000 AS)
24. Bihar	..	20000	7640	11504 (2240 AS)	5000	1560 (AS)	..
25. Orissa	4180
26. West Bengal	21340	6940 (2000 RS)	1080 (AS)
27. Manipur	980
28. Meghalaya	560 (AS)
29. Tripura	649
30. Nagaland	118
31. Arunachal Pradesh	27
32. Mizoram	12
33. Sikkim	50
34. Tea Board (North East)	15130 (4000 AS)
35. A. & N. Islands
TOTAL	54650	30000	33160	40370	95710	1560 (AS)	1080 (AS)

(TONNES)

Name of State/U.Ts. etc.	Mangalore Chemicals & Fert.	Neyveli Lignite Corpn. Ltd.	New Central Jute Mills	National Fertilizer Corporation		
				Bhatinda	Nangal	Panipat
	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
	N	N	N	N	N	N
1	2	3	4	5	6	7
1. Andhra Pradesh	9870	3507	25
2. Karnataka	48000
3. Kerala	1840
4. Tamil Nadu	1840	9821
5. Pondicherry	..	702
6. Coffee Board	4000
7. Rubber Board
8. Cardmom Board

1	2	3	4	5	6	7
9. Tea Board (South)						
10. Maharashtra	3450		50			
11. Madhya Pradesh			50			
12. Gujarat			25			
13. Rajasthan				1840	2600 (CAN)	
14. Goa, Daman & Diu						
15. Dadra & Nagar Haveli						
16. Haryana				460	15420	6900
					(6750 CAN)	
17. Himachal Pradesh					2960	
					(2500 CAN)	
18. Jammu & Kashmir						
19. Punjab				5520	31250	10120
					(13250 CAN)	
20. Uttar Pradesh			2000		10000 CAN	
21. Delhi						836
22. Chandigarh					270	
23. Assam						
24. Bihar			250			
25. Orissa						
26. West Bengal						
27. Manipur						
28. Meghalaya						
29. Tripura						
30. Nagaland						
31. Arunachal Pradesh						
32. Mizoram						
33. Sikkim						
34. Tea Board (North East)						
35. A & N Islands						
TOTAL	69000	14030	2400	7820	62500	1785

(Tonnes)

Name of State/ U.Ts. etc.	Adrash Chemicals & Fert. Ltd.	Andhra Fert.	Andhra Sugars	Anil Starch	Anish Chemicals	Assoc. Ind. (Assam) Ltd.	Bharat Fert.
	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
	P	P	P	P	P	P	P
	1	2	3	4	5	6	7
1. Andhra Pradesh		3680	1600				
2. Karnataka		480					
3. Kerala							
4. Tamil Nadu							
5. Pondicherry							
6. Coffee Board							
7. Rubber Board							
8. Cardmom Board							
9. Tea Board (South)							
10. Maharashtra	400						960
11. Madhya Pradesh	320						400
12. Gujarat	3330			1520	240		96
13. Rajasthan							
14. Goa, Daman & Diu							
15. Dadra & Nagar Haveli	30						
16. Haryana							
17. Himachal Pradesh							
18. Jammu & Kashmir							
19. Punjab	720			800	240		
20. Uttar Pradesh				480			
21. Delhi							
22. Chandigarh							
23. Assam						440	
24. Bihar							
25. Orissa		160					
26. West Bengal						240	
27. Manipur						136	
28. Meghalaya						450	
29. Tripura						51	
30. Nagaland						24	
31. Arunachal Pr.						8	
32. Mizoram						8	
33. Sikkim							
34. Tea Board (North East)						243	
35. A & N Islands							
	4800	4320	1600	2800	480	1600	1456

(Tonnes)

Name of State/ U.Ts. etc.	Coimbatore Pioneer Fert.	Dharamsi Morarji Chemicals Co. Ltd.	Gammon Fert. & Chem.	Hindustan Copper Ltd.	Hindustan Fert. Indus.	Hindustan Zinc Ltd.
Ambarnath Kumbhari						
	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
	P	P	P	P	P	P
1. Andhra Pr.
2. Karnataka	400	2848
3. Kerala	160
4. Tamil Nadu	880	80
5. Pondicherry
6. Coffee Board
7. Rubber Board
8. Cardmom Board
9. Tea Board (South)
10. Maharashtra	..	5600	400	..	200	1180
11. Madhya Pr.	..	2080	5200	..	200	160
12. Gujarat	..	3520	200	..
13. Rajasthan	..	320*	800	568
14. Goa, Daman & Diu	720
15. Dadra & Nagar Haveli
16. Haryana	1000	..
17. Himachal Pr.	200	200
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab	320	..	4100	1000
20. Uttar Pr.	520	..	1400	160
21. Delhi	100	..
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar	320
25. Orissa	200*
26. West Bengal
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pr.
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A & N Islands
Total	1440	11520	6960	2928	8200	728
						3400

*Movement by road.

(Tonnes)

Name of State/ UTs. etc.	Hyderabad Chemicals and Fert.	Jayshree Chemicals & Fert.	Kothari (Madras) Ltd.	Krishna Ind. Copn. Ltd.	Liberty Pesticides	Orissa Fert.	Paushak Ltd.
	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
	P	P	P	P	P	P	P
	1	2	3	4	5	6	7
1. Andhra Pradesh	2880	..	1360	1920
2. Karnataka	960
3. Kerala
4. Tamil Nadu	1120
5. Pondicherry	160
6. Coffee Board
7. Rubber Board
8. Cardamom Board
9. Tea Board (South)
10. Maharashtra	120*
11. Madhya Pradesh	200	..	120*

*Movement by road.

	1	2	3	4	5	6	7
12. Gujarat	100	..	1760
13. Rajasthan	300
14. Goa, Daman & Diu
15. Dadra & Nagar Haveli
16. Haryana
17. Himachal Pradesh
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab
20. Uttar Pradesh	320
21. Delhi
22. Chandigarh
23. Assam
24. Bihar	960	360	..
25. Orissa	1057	..
26. West Bengal	2720	300	..
27. Manipur
28. Meghalaya
29. Tripura
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (North East)
35. A & N Islands
TOTAL	2880	4000	3600	1920	600	1717	2000

(Tonnes)

S. No.	Name of State/ U. Ts. etc.	Phosphate Co. Ltd.	Pyrites Phosphate Ltd.	Rallis Chem. Ltd.	Shaw Wallace & Co.	Viraj Chem. Ltd.	Western Chem. Ltd.	West India Chem. Ltd.
		Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply	Supply
		P	P	P	P	P	P	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Andhra Pradesh	2400
2. Karnataka	400	..	560	200*
3. Kerala	600
4. Tamil Nadu	600	..	2400
5. Pondicherry	144
6. Coffee Board	580
7. Rubber Board	500
8. Cardamom Board	200
9. Tea Board (South)	100
10. Maharashtra	240	2600
11. Madhya Pradesh	240	168*
12. Gujarat	70
13. Rajasthan
14. Goa, Daman & Diu	50	32
15. Dadra & Nagar Haveli
16. Haryana	120
17. Himachal Pradesh	10
18. Jammu & Kashmir
19. Punjab	600
20. Uttar Pradesh	300	2700
21. Delhi
22. Chandigarh
23. Assam	100
24. Bihar	1020	..	350	240
25. Orissa	600	..	32
26. West Bengal	1860	..	400	100	80*
27. Manipur
28. Meghalaya	100
29. Tripura	120	..	10
30. Nagaland
31. Arunachal Pradesh
32. Mizoram
33. Sikkim
34. Tea Board (N. East)	700
35. A & N Islands
TOTAL	3000	5600	4000	5616	70	240	3000	

*Movement by road.

A.J.S. SODHI, Joint Secy,